

6. Write a short note on ANY TWO :

- (a) CIBIL
- (b) National Saving Certificate
- (c) Postal Life Insurance
- (d) Derivatives

किन्हीं दो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (क) सिबिल
- (ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
- (ग) डाक जीवन बीमा
- (घ) डेरिवेटिव

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 4320 I

Unique Paper Code : 2416000002

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : Common Prog. Group (SEC).
UGCF

Semester : V

Duration : 2 Hours

Maximum Marks : 60

समय : 2 घण्टे

पूर्णांक : 60

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt any 4 questions.
3. All questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।

2. किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. "Financial literacy safeguards long-term financial stability". Do you agree? If yes, state the importance and scope of financial literacy.

"वित्तीय साक्षरता दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता की रक्षा करती है"। क्या आप सहमत हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय साक्षरता के महत्व और दायरे के बारे में बताइये।

2. "Electronic banking is the wave of the future". In light of this statement, list the various advantages and types of e-banking services offered by banks.

"इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भविष्य की लहर है"। इस कथन के आलोक में, बैंकों द्वारा दी जाने वाली ई-बैंकिंग सेवाओं के विभिन्न लाभों और प्रकारों की सूची बनाइये।

3. Explain the key terms used in stock markets, such as SENSEX, NIFTY, primary markets, and secondary markets. How do they help investors make informed decisions?

शेयर बाजारों में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख शब्दों की व्याख्या कीजिए, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। वे निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में कैसे मदद करते हैं?

4. Discuss the importance of senior citizen savings schemes offered by post offices. Highlight their benefits and compare them with other investment options like fixed deposits and mutual funds.

डाकघरों द्वारा दी जाने वाली वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के महत्व पर चर्चा कीजिए। उनके लाभों पर प्रकाश डालिये और उनकी तुलना सावधि जमा और म्यूचुअल फंड जैसे अन्य निवेश विकल्पों से कीजिए।

5. "Indian Post Offices are the foundation of mass financial literacy." Elucidate the statement.

"भारतीय डाकघर बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता की नींव हैं।" इस कथन को स्पष्ट कीजिए।